

राजकीय आयोग (रॉयल कमीशन) की अंतिम रिपोर्ट के बारे में

विक्टोरिया की लगभग आधी आबादी को अपने जीवनकाल में मानसिक बीमारी का अनुभव होगा। उन लोगों के लिए प्रणाली वितरण नहीं कर रही है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसलिए विक्टोरिया सरकार ने विक्टोरिया की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक राजकीय आयोग की स्थापना की।

आयोग को विक्टोरिया के समुदाय से 12,500 से भी अधिक प्रस्तुतियों का योगदान प्राप्त हुआ।

आयोग ने तत्काल आवश्यकताओं का उत्तर देने के लिए 2019 में संस्तुतियों के साथ एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की। अंतिम रिपोर्ट [राजकीय आयोग की वेबसाइट](#) पर उपलब्ध है। यह एक आधुनिक और अनुकूलनीय मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण प्रणाली बनाने के लिए तंत्रव्यापी परिवर्तनों की रूपरेखा देती है। एक ऐसी प्रणाली, जो सहानुभूतिशील, संवेदनशील और सभी लोगों के लिए आसानी से सुलभ हो।

इसमें दी गई 65 संस्तुतियाँ हमें बताती हैं कि इस नई प्रणाली को कैसे बनाया जाए।

संस्तुतियों में शामिल हैं:

- सभी विक्टोरियावासियों के लिए उपचार, देखभाल और समर्थन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या आवश्यकताएँ कुछ भी हों।
- संकट-आधारित नमूने से समुदाय-आधारित नमूने की ओर परिवर्तन करना।
- परिवारों और देखभालकर्ताओं के लिए सहायता कार्यक्रम स्थापित करना।
- स्थाई मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली को समर्थन देने के लिए नई संरचनाएँ बनाना।
- विविधतापूर्ण, पर्याप्त आकार के, और सही कुशलताओं एवं अनुभव वाले कार्यबल का निर्माण करना।
- जीवंत अनुभवों वाले लोगों के नेतृत्व में प्रस्तावों को स्थापित करना।
- अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन के लिए खेल और कार्यक्षेत्र जैसे सेक्टरों में नई कार्यप्रथाएँ निर्मित करना।
- अनुकूलनशील प्रणाली बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं, अनुसंधान और नवाचार का उपयोग करना।

ये संस्तुतियाँ विक्टोरिया में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित उपचार, देखभाल तथा समर्थन प्रदान करने के हमारे तरीकों का रूपांतरण करेंगी।

विक्टोरिया सरकार आयोग द्वारा प्रदान की गई सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और तुरंत कार्य करने के प्रति समर्पित है।